

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2015—वैशाख 31, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन के पत्र क्रमांक बी-11-3-2014-2, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा रबी 2014-15 के पटवारी हल्का की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें नरसिंहपुर जिले में संलग्न अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

पत्रक "अ"

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम जिला	रबी तहसील	वर्ष रा.नि.मं. का नाम	2014-2015 पटवारी हल्का नं.	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली फसलों की हल्कावार सूची				
				पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	42	देवरीकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			45	खमतारा			चना	
			47	रानीपिंडरई	गेहूं सिंचित		चना	
			49	सिंहपुर	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			51	सिमरिया	गेहूं सिंचित		चना	
		बचई	52	भैसा	गेहूं सिंचित		चना	
			53	पाला	गेहूं सिंचित		चना	
			54	कल्याणपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			55	बारूरेवा	गेहूं सिंचित		चना	
			56	झारखुरपा	गेहूं सिंचित		चना	
			57	खुरपा	गेहूं सिंचित		चना	
			58	डागीढाना	गेहूं सिंचित		चना	
			59	मुडिया	गेहूं सिंचित		चना	
			60	बहोरीपार	गेहूं सिंचित		चना	
			61	सहजपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			62	चौराखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			63	चीलाचौन कलां	गेहूं सिंचित		चना	
			64	चीलाचौन खुर्द	गेहूं सिंचित		चना	
			65	बड़गुवां			चना	
			68	बबरिया			चना	
		मुंगवानी	69	बकोरी	गेहूं सिंचित		चना	
			70	देवनगर	गेहूं सिंचित		चना	
			71	मुंगवानी			चना	
			72	पस्ताना	गेहूं सिंचित		चना	
			73	गोहगावरी	गेहूं सिंचित		चना	
			74	पीपरपानी	गेहूं सिंचित		चना	
			76	रातोमाटी			चना	
			77	महगांव			चना	
			78	कोदरासकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			79	खमरिया	गेहूं सिंचित			
			80	गोरखपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			81	बालौद	गेहूं सिंचित			
			82	पिपरिया	गेहूं सिंचित		चना	
करेली		बरमान	8	बीतली	गेहूं सिंचित		चना	
			9	बिचुआ			चना	
		करेली	26	रामपिपरया	गेहूं सिंचित		चना	
			39	कठौलिया	गेहूं सिंचित		चना	
		आमगांव	42	कंधरापुर			चना	
			43	कपूरी	गेहूं सिंचित		चना	
			44	कीतरज	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			45	कोसमखेड़ा			चना	
			46	निवारी			चना	
			47	अम्हेटा	गेहूं सिंचित		चना	
			48	सासाबहू	गेहूं सिंचित		चना	
			49	जोवा	गेहूं सिंचित		चना	
			50	मोहद	गेहूं सिंचित		चना	
			51	बधुवार	गेहूं सिंचित		चना	
			53	बम्हौरी	गेहूं सिंचित			
			54	आमगांवबड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			55	सिमरियाकला	गेहूं सिंचित		चना	
			56	पिपरिया (बरौदिया)	गेहूं सिंचित		चना	
			57	नयाखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			58	बासादेही	गेहूं सिंचित			
			59	गोबरगांव	गेहूं सिंचित		चना	
			60	खिरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			61	बारहछोटा	गेहूं सिंचित		चना	
			62	ग्वारीकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			63	रमखिरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			64	हिनोतिया	गेहूं सिंचित		चना	
नरसिंहपुर	गोटेगांव	करकवेल	16	आखीवाड़ा	गेहूं सिंचित			
		गोटेगांव	44	बगलई उजर	गेहूं सिंचित		चना	
		श्रीनगर	63	छौत	गेहूं सिंचित		चना	
		बरहटा	79	बेलखेड़ी			चना	
नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	13	टेकापार	गेहूं सिंचित			
		चीचली	77	थलवाड़ा	गेहूं सिंचित		चना	